

M/S Uday Shankar Bajaj

New maintenance Policy

NH-31 Dharmoli More to Deo Bistha More via Ganganpur  
Survey Bistha (Deobhat, Bala, Bishimra)

**Measurement Book**

Schedule XLV-Form No. 134

1961/211/5

DIVISION

*[Signature]*

SUB-DIVISION

2962

प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्य  
पुस्तक के माध्यम से कुल 100 (एक सौ)  
घरों में निम्न शीटों के माध्यम से  
निम्न प्रकार से अभियंता, ग्रामीण  
कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिहार शरीफ  
द्वारा निर्गत किया गया है।

(9/11/20)

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमण्डल, बिहार शरीफ

Singh  
29/11/20

Re-issued to Sri Binod Kr Singh, J.B.  
Kachhi

Hy  
11/10/20  
AB

Sch, XLV-Form No. 134

विहारशरीफ DIVISION  
रूड़ SUB-DIVISION

### Measurement Book

No. 2962

Name of Officer श्री रामप्रसाद यादव, नि. 2169

Date of first entry 7/11/20

Date of last entry \_\_\_\_\_

Name of Work -  
 Situation of work -  
 Agency by which work is executed -  
 Date of measurement -  
 No. and date of agreement -  
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work).

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	Record entry				
Name of work	Maintenance of road				
	From MH31 Dhamali more to Deo				
	Bigha more via Gaganpur Shivay				
	Bigha				
Head	3054				
Agency	M/S Uday Shankar Project				
Agreement No	MBD-07/2020-2				
Agreement Date	0.10 Below of BOB date				
Agreement Amount					

Date of work start	08/09/2020				
Date of completion	07/06/2021				
Date of entry	7/10/20				
(128) Clearing and grubbing					
road land	all				
Complete Job					
	Deo Bigha road				
	2x2x	30.00	x 1.00	=	120.00 m <sup>2</sup>
	2x4x	30.00	x 1.00	=	240.00 m <sup>2</sup>
	2x1x	5.00	x 1.00	=	10.00 m <sup>2</sup>
	1x1x	1.20	x 1.00	=	1.20 m <sup>2</sup>
	Bibipur (Bijaypur) road				
	2x3x	30.00	x 1.00	=	180.00 m <sup>2</sup>
	2x4x	30.00	x 1.00	=	240.00 m <sup>2</sup>
	2x1x	1.00	x 1.00	=	2.00 m <sup>2</sup>

Continuation 60793 120 m<sup>2</sup>

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
2nd and final Bill					
Name of work - Maintenance of road					
from HH 31 Dhamauli more to Deo					
Buzha more Wa gaganpur shikri Buzha					
Agency - MIS Uday Shankar Prasad					
Agreement No - MPO-UT/2020-21					
Agreement rate - As per BOP rate					
Date of commance - 8/9/2020					
Date of Completion - 7/6/2021					
Date of Completion - 7/10/22					
Date of Entry - 7/10/22					
① construction of subgrade					
<del>2nd and 3rd item schedule</del>					

--- all complete work					
Deo Buzha road					
2x	4x30x0.60	0.50x0.30	=	36	cm <sup>3</sup>
2x	1x30x0.60	0.50x0.30	=	9	cm <sup>3</sup>
2x	1x30x0.60	0.50x0.30	=	9	cm <sup>3</sup>
Buzha (Wizaynagar) road					
2x	7x30x0.60	0.50x0.30	=	63	cm <sup>3</sup>
2x	1x30x0.60	0.50x0.30	=	9	cm <sup>3</sup>
Buzha road					
2x	1x30x0.60	0.50x0.30	=	9	cm <sup>3</sup>
Buzha road					
2x	6x30x0.60	1.20x0.60	=	259.2	cm <sup>3</sup>
2x	1x10x0.60	1.00x0.60	=	259.2	cm <sup>3</sup>
12 cm <sup>3</sup>					
2x	5x30x0.60	1.10x0.60	=	198	cm <sup>3</sup>
2x	8x30x0.60	1.10x0.60	=	343.2	cm <sup>3</sup>
2x	6x30x0.60	1.00x0.60	=	216	cm <sup>3</sup>
2x	2x30x0.60	1.00x0.70	=	84	cm <sup>3</sup>
2x	6x30x0.60	0.50x0.30	=	54	cm <sup>3</sup>
2x	1x30x0.60	0.50x0.30	=	9	cm <sup>3</sup>
Continuation 1292.40 cm <sup>3</sup>					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF R	3069507.0
(22/155) Plastering with cement mortar (1:4) - all complete					
DB					
Qm vid. tab Page 23 =					7593m <sup>2</sup>
					QA 149.23/m <sup>2</sup> = A
					11331.0
				R	3080838.0
Add 12% GST				(+)	369701.0
Add 1% labour less				(-)	30808.0
				R	3481347.0
and signicance fee					
(a) subgrade					149600 m <sup>3</sup> <del>149600 m<sup>3</sup></del> 80

					QA 23.78 x 10/100 / m <sup>3</sup> = R	3082.0
(b) GSB - 37.30 m <sup>3</sup>						
					QA 439.34 x 10/100 / m <sup>3</sup> = R	16391.0
(c) WBM2 - 32.045 m <sup>3</sup>						
					QA 620.16 x 10/100 / m <sup>3</sup> = A	1987.0
(d) WBM3 - 56.92 m <sup>3</sup>						
					QA 637.97 x 10/100 / m <sup>3</sup> = A	3628.0
(e) MSS - 1270.92 m <sup>2</sup>						
					QA 12.69 x 10/100 / m <sup>2</sup> = A	1613.0
(f) SDBC - 148.707 m <sup>3</sup>						
					QA 717.93 x 10/100 / m <sup>3</sup> = B	16676.0
(g) B/W - 10.82 / m <sup>3</sup>						
					QA 380.00 x 10/100 / m <sup>3</sup> = R	411.0
					QA	3504783.0

Continuation

